



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம்
(தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



सत्यमेव जयते

மணல அலுவலகம் / क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE

இ. எஸ்.ஐ.சி வளாகம், புவன்கரே வீதி, முதலியார்பேட்டை, புதுச்சேரி - 605 004
क.रा.बी.नि. भवन, बुवन्करे मार्ग, मुदलियारपेट, पुदुच्चेरी - 605 004

ESIC COMPLEX, BOUVANKARE STREET, MUDALIARPET, PUDUCHERRY - 605 004
Phone: 0413 2357642 Email: rd-pondi@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in

No. 55-A/22/15/1/2003-Vol.VIII-Admin.

Date: 09-02-2024

कार्यालय आदेश सं। 21 का 2024 / OFFICE ORDER No. 21 OF 2024

The Regional Director I/C has ordered Annual General Transfer for the "Transfer year – 2024" in respect of following officials with immediate effect:

Sl. No	Name, Designation, Employee No of the Official Shri/Smt/Kum	Present place of posting	Place of Posting now Ordered
1	N. Dinesh Babu, Assistant (118164)	Administration Branch, R.O, Puducherry	Head Clerk, Branch Office, Thirubuvanai
2	Sankardevi K, Assistant (118153)	Insurance Branch, R.O, Puducherry	Head Clerk , Branch Office, Gandhinagar
3	Arokiaraj A, Assistant (118156)	Legal Branch, R.O, Puducherry	Head Clerk, Branch Office, Karaikal
4	Satheeshkumar R, Assistant (137186)	Administration Branch, R.O, Puducherry	Head Clerk, Branch Office, Villianur
5	Dinesh Babu, R, UDC (168277)	F & A Branch, R.O, Puducherry	UDC/C, Branch Office, Gandhinagar
6	Vijayalakshmy S, UDC (118162)	Insurance Branch, R.O, Puducherry	UDC/C, Branch Office, Thirubuvanai
7	Vijayalakshmi R, UDC (118169)	Insurance Branch, R.O, Puducherry	UDC/C, Branch Office, Villianur
8	Jayashri N, UDC(Ad hoc) (136818)	Branch Office, Gandhinagar	UDC(Ad hoc), Insurance Branch, R.O, Puducherry
9	Raja G, LDC (136758)	PMD branch, R.O, Puducherry	LDC, Branch Office, Town
10	Anand S, LDC (161993)	Branch Office, Town	LDC, Administration Branch (Central Diary & Despatch section), R.O, Puducherry
11	Dinesh R, MTS (168292)	Legal Branch, R.O, Puducherry (Under diversion to Ins. Br.)	MTS, Branch Office, Villianur

1. Aforesaid officials have been transferred/posted in public interest and are entitled for TA/DA/Joining Time etc., wherever admissible under rules.
2. Sl. No. 5, 6 & 7 shall take over the charge of UDC/Cashier from the existing UDC/cashier of the respective offices & shall be eligible for allowances as per rules.
3. Report of the Transfer Committee and its recommendations is being uploaded on Regional Office, Puducherry website.
4. Existing transfer policy of aforesaid cadre prescribes that all the grievances from the officials arising out of Annual General Transfer on the recommendations of the Transfer Committee shall be addressed by the Grievance Committee. Hence grievances if any, may be forwarded through proper channel to RO through email at <dr.p.loganathan@esic.nic.in>; within 3 working days of publishing of this Office Order.

Relieving/ Joining report may be forwarded to all concerned.

Hindi version will follow

Signed by

S Ganesan

Date: 09-02-2024 18:29:16

(S. GANESAN)

DEPUTY DIRECTOR (Admin.)

FOR REGIONAL DIRECTOR (I/c)

To

1. The Officials concerned
2. P.S to RD Cell
3. All Branch Officers of RO, Puducherry
4. All SSO/OS/ BM, ESIC, Puducherry Region.
5. ICT Branch – for uploading in the website along with the copy of AGT Committee Report – 2024.
6. Hindi Cell/O.O. File/Personal file.